



## चिरंजीवी

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

### टेडी रीढ़ की हड्डी से चिपकी जटिल किडनी में पथरी का , चिरंजीवी योजना में सफल ऑपरेशन

पाल लिंक रोड स्थित कमला नगर हॉस्पिटल में जोधपुर निवासी 60 वर्षीय महिला मरीज के किडनी में पथरी का जटिल ऑपरेशन किया गया।

अस्पताल के निदेशक व मूत्र व गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉ प्रकाश चौधरी ने बताया कि मरीज पिछले लम्बे समय से बाएं गुर्दे कि तरफ दर्द से परेशान थी। जाँच में पाया गया कि मरीज पूरा देवी की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह कर्व होकर टेढ़ी हो गई थी और उस कारण उसकी बाईं किडनी लगभग रीढ़ की हड्डी से चिपक गई थी। इस तरह की समस्या को काइफो स्कलेसिओसिस कहा जाता है जो कि अपने आप में एक गंभीर जटिलता है। इस तरह के मरीजों के किडनी कि पथरी के ऑपरेशन में कई तरह कि जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। मरीज के बाएं गुर्दे में पथरी व संक्रमण भी पाया गया।

इस कारण मरीज असहनीय दर्द से परेशान था और कई चिकित्सकों से परामर्श के बावजूद उसे आराम नहीं मिल पा रहा था। डॉ प्रकाश चौधरी द्वारा इस मरीज की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की गई और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बिमा योजना के अंतर्गत मरीज के बाएं गुर्दे की पथरी का सफल ऑपरेशन किया गया।

आपरेशन के लिए बनाई गई विशेष टीम में निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ दिनेश जैन , डॉ जितेंद्र, ओ टी स्टाफ वाज़िद मनोज, लक्ष्मण व सुभाष शामिल थे।

अस्पताल चेयरमैन डॉ राम गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बिमा योजना के अंतर्गत मरीजों को विभिन्न बिमारियों का निशुल्क उपचार व ऑपरेशन कर उन्हें रहत पहुंचाई जा रही है।

**डॉ राम गोयल**

चेयरमैन